

6. 80 किमी./घंटा की औसत गति से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है, तो कोलकाता और रांची के बीच कितनी दूरी है?
- (a) 560 किमी. (b) 506 किमी.
(c) 560 मी. (d) 650 मी.

S.S.C. ऑफिसर नियुक्ति परीक्षा (T-I) 9 सितंबर, 2016 (II-पार्टी)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर-(a)

व्याख्या— दिया है— औसत गति (ट्रेन) = 80 किमी./घंटा
समय = 7 घंटे
दूरी = चाल × समय
= $80 \times 7 \Rightarrow 560$ किमी.

7. एक ट्रेन 116 किमी./घंटा की गति से चल रही है। 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी?
- (a) 900 मीटर (b) 1160 मीटर
(c) 508 मीटर (d) 580 मीटर

S.S.C. ऑफिसर नियुक्ति परीक्षा (T-I) 4 सितंबर, 2016 (II-पार्टी)
उत्तर-(d)

व्याख्या— ट्रेन की चाल = 116 किमी./घंटा
समय = 18 सेकंड
तय दूरी = चाल × समय
= $116 \times \frac{5}{18} \times 18 \Rightarrow 580$ मीटर

8. एक गाड़ी 60 किमी./घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है। 80 किमी./घंटा की गति से दूरी तय करने में गाड़ी को लगने वाला समय है :

- (a) 3 घंटे (b) $3\frac{5}{8}$ घंटे
(c) $2\frac{5}{8}$ घंटे (d) $4\frac{5}{8}$ घंटे

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2013

उत्तर-(c)

व्याख्या— गाड़ी की चाल = 60 किमी./घंटा
गाड़ी द्वारा लिया गया समय = 210 मिनट = $\frac{210}{60}$ घंटा
 \therefore चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$
 $60 = \frac{\text{दूरी}}{210}$
 $\text{दूरी} = 60 \times \frac{210}{60} \Rightarrow 210$ किमी.
 \therefore गाड़ी की नई चाल = 80 किमी./घंटा
 \therefore गाड़ी द्वारा लिया गया समय = $\frac{210}{80} \Rightarrow 2\frac{5}{8}$ घंटे

9. एक रेलगाड़ी जो 60 किमी./घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह वही दूरी 12 घंटे में तय करे, तो उसकी चाल क्या होगी?
- (a) 65 किमी./घंटा (b) 70 किमी./घंटा
(c) 75 किमी./घंटा (d) 80 किमी./घंटा

S.S.C. ऑफिसर नियुक्ति परीक्षा (T-I) 9 सितंबर, 2016 (III-पार्टी)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर-(c)

व्याख्या— ट्रेन की चाल = 60 किमी./घंटा
तथा समय = 15 घंटा
तय की गई दूरी = चाल × समय = $60 \times 15 \Rightarrow 900$ किमी.
नई चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} = \frac{900}{12} \Rightarrow 75$ किमी./घंटा

10. एक रेलगाड़ी 3584 किमी. की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि इसने पहले दिन 1440 किमी. तथा दूसरे दिन 1608 किमी. दूरी तय किया हो, तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल का पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितना अंतर होगा?

- (a) 3 किमी./घंटा अधिक (b) 6 किमी./घंटा
(c) 4 किमी./घंटा अधिक (d) 5 किमी./घंटा कम

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर-(a)

व्याख्या— रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी = 3584 किमी.
शेष दूरी = $3584 - (1440 + 1608) \Rightarrow 536$ किमी.
 \therefore 3584 किमी. दूरी रेलगाड़ी द्वारा 2 दिन 8 घंटे अर्थात् 56 घंटे में तय की जा रही है।
अतः औसत चाल = $\frac{3584}{56} = 64$ किमी./घंटा
शेष दूरी रेलगाड़ी द्वारा 8 घंटे में तय की जा रही है।
अतः शेष दूरी के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल = $\frac{536}{8} = 67$ किमी./घंटे
अतः अंतर = $67 - 64 \Rightarrow 3$ किमी./घंटा अधिक

11. दो रेलगाड़ियों की चाल 6 : 7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किमी. चले, तो पहली रेलगाड़ी की चाल है-

- (a) 60 किमी./घंटा (b) 72 किमी./घंटा
(c) 78 किमी./घंटा (d) 84 किमी./घंटा

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2010

उत्तर-(c)

व्याख्या— दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6 : 7 है।
दूसरी गाड़ी 4 घंटे में 364 किमी. चली तो पहली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी = $364 \times \frac{6}{7} \Rightarrow 312$ किमी.
अतः पहली गाड़ी की चाल = $\frac{312}{4} \Rightarrow 78$ किमी./घंटा

(c) 7.2 सेकंड

(d) 70 सेकंड

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (I-पारी)

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (II-पारी)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013, 2014

उत्तर—(c)

व्याख्या— दिया है-

ट्रेन की लंबाई = 100 मीटर

ट्रेन की चाल = 50 किमी./घंटा

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} = \frac{100}{50 \times \frac{5}{18}} = \frac{100 \times 18}{50 \times 5}$$

$$= \frac{36}{5} \Rightarrow 7.2 \text{ सेकंड}$$

20. 75 मी. लंबी एक रेलगाड़ी 60 किमी./घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी?

(a) 3.5 सेकंड

(b) 4.5 सेकंड

(c) 5 सेकंड

(d) 5.4 सेकंड

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 2 सितंबर, 2016 (III-पारी)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(b)

व्याख्या— दिया है-

ट्रेन की लंबाई = 75 मीटर

ट्रेन की चाल = 60 किमी./घंटा

$$\text{खंभे को पार करने में लगा समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} = \frac{75}{60 \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{75 \times 18}{60 \times 5} \Rightarrow 4.5 \text{ सेकंड}$$

21. एक रेलगाड़ी 90 किमी./घंटा की गति से चल रही है। 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी?

(a) 96

(b) 91

(c) 86

(d) 93

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 4, 8 मार्च, 2018 (I-पारी)

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (II-पारी)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या— रेलगाड़ी की गति = 90 किमी./घंटा

$$= \left(90 \times \frac{5}{18} \right) \text{ मी./सेकंड}$$

$$= 25 \text{ मी./सेकंड}$$

$\therefore 25 \text{ मीटर दूरी तय करने में लगा समय} = 1 \text{ सेकंड}$

$$\therefore 2275 \text{ मीटर दूरी तय करने में लगा समय} = 2275 \times \frac{1}{25} \Rightarrow 91 \text{ से.}$$

22. एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी?

(a) 16 सेकंड

(b) 18 सेकंड

(c) 20 सेकंड

(d) 22 सेकंड

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना, रेलगाड़ी की गति x मी./से. है।

रेलगाड़ी की लंबाई y मीटर है।

अतः $y = 10x$

$\therefore y + 300 = 25x$

$10x + 300 = 25x$

$15x = 300$

$x = 20$ मी./से.

अतः $y = 10 \times 20 = 200$ मी.

अतः 200 मी. लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय

$$= \frac{200+200}{20}$$

$$= \frac{400}{20} \Rightarrow 20 \text{ सेकंड}$$

Trick— ट्रेन की लंबाई

$$=\frac{\text{व्यक्ति को पार करने में लगा समय} \times \text{प्लेटफॉर्म की लंबाई}}{\text{दोनों समयों का अंतर}}$$

$$= \frac{10 \times 300}{25-10} \Rightarrow 200 \text{ मी.}$$

$$\therefore \text{ट्रेन की चाल} = \frac{200}{10} \Rightarrow 20 \text{ मी./से.}$$

$$200 \text{ मी. लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय} = \frac{200+200}{20}$$

$$= \frac{400}{20} \Rightarrow 20 \text{ सेकंड}$$

23. एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर तेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है?

(a) 120 मी.

(b) 125 मी.

(c) 250 मी.

(d) 152 मी.

S.S.C. मल्टी टार्सिंग परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2005, 2006, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— माना रेलगाड़ी की लंबाई = l

$\therefore 500 \text{ मीटर पुल पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी} = l + 500 \text{ मीटर}$

$$\therefore \text{रेलगाड़ी की चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल लगा समय}}$$

$$\text{तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई} = 10 \times \frac{5}{18} \times 162 \\ = 450 \text{ मी.} \\ [\text{किमी./घंटा को मी./से. में बदलने पर}]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1000}{\left(75 \times \frac{5}{18}\right)} = \frac{1000}{25 \times \frac{5}{6}} \\
 &= 1000 \times \frac{6}{125} \Rightarrow 40 \times \frac{6}{5} \\
 &= 8 \times 6 \Rightarrow 48 \text{ से.}
 \end{aligned}$$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (3-पारी)

उत्तर—(d)

व्याख्या— पहली रेलगाड़ी की लंबाई = 100 मी.
तथा दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई = 150 मी.

∴ दोनों रेलगाड़ी की कुल लंबाई = $100 + 150 = 250$ मी.
पहली रेलगाड़ी की चाल = 40 कि./घंटा
माना दूसरी रेलगाड़ी की चाल = x किमी./घंटा
विपरीत दिशाओं में चल रही रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल
दोनों रेलगाड़ी की चालों के योग के बराबर होगी।

∴ सापेक्ष चाल = $\frac{\text{समिक्षित चाल} - \text{किमी./घंटा}}{\text{किमी./घंटा}}$

$40 + x = \left(\frac{250}{9} \times \frac{18}{5} \right)$ किमी./घंटा

(∴ $\frac{18}{5}$ से गुणा करके चाल किमी./घंटा की गई)

$40 + x = 100$

$x = 100 - 40 \Rightarrow 60$ किमी./घंटा

S.S.C. असलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (II-पार्टी)

व्याख्या— दोनों रेलगाड़ियों की कुल लंबाई = $450 + 550 = 1000$ मी.
दोनों ट्रेनों की सापेक्षिक चाल = $(30 + 45)$ किमी./घं.
 $= 75$ किमी./घं. $\Rightarrow 75 \times \frac{5}{18}$ मी./से.
 \therefore धीमी गति वाली ट्रेन को तेज गति वाली ट्रेन पार करने में
लगा समय

30. 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किमी./घंटा की चाल से चल रही है। वह उस आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी जो 6 किमी./घंटा की चाल से उस दिशा से उलटी दिशा में भाग रहा है? जिसमें रेलगाड़ी जा रही है?

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2005, 2012
उत्तर-(a)

व्याख्या— चूंकि रेलगाड़ी की गति की दिशा से विपरीत दिशा में आदमी भाग रहा है। अतः सापेक्ष चाल = $60 + 6$
 $= 66 \text{ किमी./घंटा}$

अतः रेलगाड़ी द्वारा आदमी को पार करने में लगा समय

$$= \frac{\text{रेलगाड़ी की लंबाई}}{\text{सापेक्ष चाल}}$$

$$= \frac{220 \text{ किमी.}}{66 \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{220 \times 18}{66 \times 5} \Rightarrow 12 \text{ सेकंड}$$

S.S.C. ऑफिलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) ? सितंबर 2016 (II-पाली)

उच्चार-(d)

द्याएँ— दिया है-

देन x की चाल = 45 किमी /घंटा

ट्रेन V की चाल = 40 किमी./घंटा

45 मिनट में दोनों टेनों द्वारा तय की गई दूरी का अंतर

$$= 45 \times \frac{3}{4} - 40 \times \frac{3}{4}$$

$$= \frac{135}{4} - \frac{120}{4}$$

$$= \frac{15}{4} \Rightarrow 3.75 \text{ किमी.}$$

$$x + y = \frac{195}{9} \quad \dots\dots(ii)$$

अब समी.(i) में समी.(ii) को जोड़ने पर

$$2x = \frac{195}{27} + \frac{195}{9}$$

$$2x = \frac{195 + 585}{27} = \frac{780}{27} \text{ मीटर/सेकंड}$$

$$\therefore x = \frac{780}{54} \times \frac{18}{5} \text{ किमी./घंटा}$$

$$x = \frac{260}{5} \Rightarrow 52 \text{ किमी./घंटा}$$

अब समी.(ii) में से समी.(i) को घटाने पर

$$2y = \frac{195}{9} - \frac{195}{27}$$

$$2y = \frac{585 - 195}{27} = \frac{390}{27} \text{ मीटर/सेकंड}$$

$$\therefore y = \frac{390}{54} \times \frac{18}{5} \Rightarrow 26 \text{ किमी./घंटा}$$

36. 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किमी./घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ-साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल होगी—
 (a) 63 किमी./घंटा
 (b) 75 किमी./घंटा
 (c) 83.4 किमी./घंटा
 (d) 86.4 किमी./घंटा

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर—(c)

$$\text{व्याख्या— सापेक्षिक चाल} = \frac{240}{10} \text{ मी./से.}$$

$$= 24 \text{ मी./से.}$$

$$= 24 \times \frac{18}{5} \text{ किमी./घंटा}$$

$$= 86.4 \text{ किमी./घंटा}$$

$$\therefore \text{रेलगाड़ी की चाल} = (86.4 - 3) \text{ किमी./घंटा}$$

$$= 83.4 \text{ किमी./घंटा}$$

37. एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किमी./घंटा तथा 5 किमी./घंटा की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड तथा 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है?

- (a) 28 किमी./घंटा (b) 27 किमी./घंटा
 (c) 25 किमी./घंटा (d) 24 किमी./घंटा

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

व्याख्या— मान लिया, गाड़ी की लंबाई = L मी.
 गाड़ी की चाल = x मी./से.

$$\text{पहले व्यक्ति की चाल} = 3 \text{ किमी./घंटा} = 3 \times \frac{5}{18} = \frac{5}{6} \text{ मी./से.}$$

$$\text{अतः पहले व्यक्ति की सापेक्ष गाड़ी की चाल} = x - \frac{5}{6} \text{ मी./से.}$$

दूसी = चाल × समय

$$= \left(x - \frac{5}{6} \right) \times 10 \dots\dots(i)$$

अब, दूसरे व्यक्ति की चाल = 5 किमी./घंटा

$$= 5 \times \frac{5}{18}$$

$$= \frac{25}{18} \text{ मी./से.}$$

$$\text{अतः दूसरे व्यक्ति की सापेक्ष चाल} = x - \frac{25}{18}$$

दूसी = चाल × समय

$$= \left(x - \frac{25}{18} \right) \times 11 \dots\dots(ii)$$

∴ अतः (i) और (ii) से

$$x = \frac{275 - 150}{18} = \frac{125}{18} \text{ मी./से.}$$

$$\therefore \text{प्रति घंटा चाल} = \frac{125}{18} \times \frac{18}{5} \Rightarrow 25 \text{ किमी./घंटा}$$

38. प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। उनमें एक रेलगाड़ी 65 किमी./घंटा की गति से चल रही है और वे दोनों एक-दूसरे को 6 सेकंडों में पार कर लेती हैं। तदनुसार, दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी होगी?

- (a) 75 किमी./घंटा (b) 85 किमी./घंटा
 (c) 95 किमी./घंटा (d) 105 किमी./घंटा

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या— माना दूसरी रेलगाड़ी की गति = x किमी./घंटा

$$\text{रेलगाड़ी की सापेक्षिक दूरी} = 125 + 125$$

$$= 250 \text{ मीटर}$$

$$\text{कुल लगा समय} = 6 \text{ सेकंड}$$

$$\therefore \text{रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$$

$$\frac{250}{65+x} = \frac{1000}{60 \times 6}$$

$$(c) 3 \frac{3}{4} \text{ घंटे}$$

$$(d) 6 \text{ घंटे } 45 \text{ मिनट}$$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— 48 किमी./घंटा की चाल से 6 घंटे 30 मिनट में चली

$$\text{गई दूरी} = 48 \times \frac{13}{2} = 312 \text{ किमी.}$$

48 किमी./घंटा की चाल से 180 किमी. दूरी तय करने में लगा

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} = \frac{180}{48} = 3 \frac{3}{4} \text{ घंटा}$$

$$\text{या समय} = 3 \text{ घंटे } 45 \text{ मिनट}$$

$$\therefore \text{शेष दूरी} = 312 - 180 = 132 \text{ किमी.}$$

\therefore अब चाल 33 किमी./घंटा कर दी जाती है।

$$\therefore 132 \text{ किमी. दूरी तय करने में लगा समय} = \frac{132}{33} \Rightarrow 4 \text{ घंटा}$$

$$\text{याक्रा में लगा कुल समय} = 3 \text{ घंटे } 45 \text{ मिनट} + 4 \text{ घंटा}$$

$$= 7 \text{ घंटा } 45 \text{ मिनट}$$

46. 150 मी. लंबी एक रेलगाड़ी एक किमी. के पथर से 30 सेकंड में गुजरती है और विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में गुजरती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है?

- (a) 125 किमी./घंटा (b) 25 किमी./घंटा
 (c) 90 किमी./घंटा (d) 75 किमी./घंटा

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

$$\text{व्याख्या}— \text{रेलगाड़ी की चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{चाल}} \\ = \frac{150}{30} = 5 \text{ मीटर/सेकंड}$$

$$\text{माना दूसरी रेलगाड़ी की चाल} = v \text{ मी./सेकंड}$$

$$\therefore \text{रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल} = 5 + v \text{ मी./सेकंड}$$

$$\text{तथा रेलगाड़ी द्वारा तय कुल दूरी} = 150 + 150 \\ = 300 \text{ मी.}$$

प्रश्नानुसार

$$10 = \frac{300}{5 + v} \\ \therefore 5 + v = 30 \\ v = 30 - 5 \\ v = 25 \text{ मी./सेकंड} \\ = 25 \times \frac{18}{5} \text{ किमी./घंटा} \Rightarrow 90 \text{ किमी./घंटा}$$

Trick— $\because 150 \text{ मी. लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को } 30 \text{ सेकंड में पार करती है।$

अतः ट्रेन की चाल = 5 मीटर/सेकंड

उसी ट्रेन को 150 मी. लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में लगा समय = 10 सेकंड

$$= \frac{150 + 150}{10} = 30 \text{ मी./से.}$$

अतः दूसरी रेलगाड़ी की गति = ट्रेन की सापेक्ष चाल

$$= (30 - 5) \times \frac{18}{5} \Rightarrow 90 \text{ किमी./घंटा}$$

47. एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक-दूसरे को कितने समय में पार करेंगी?

- (a) $2 \frac{3}{7}$ सेकंड (b) $3 \frac{3}{7}$ सेकंड
 (c) $4 \frac{3}{7}$ सेकंड (d) $5 \frac{3}{7}$ सेकंड

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

व्याख्या— मान लिया कि दोनों रेलगाड़ियों की समान लंबाई $= x$ मीटर

$$\text{पहली रेलगाड़ी की चाल} = \frac{x}{3} \text{ मी./से.}$$

$$\text{दूसरी रेलगाड़ी की चाल} = \frac{x}{4} \text{ मी./से.}$$

\therefore दोनों गाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय

$$= \frac{2x}{\frac{x}{3} + \frac{x}{4}} \text{ सेकंड} \\ = \frac{2x}{\frac{4x + 3x}{12}} \\ = \frac{2x}{\frac{7x}{12}} \\ = \frac{2x \times 12}{7x} \text{ सेकंड} \\ = \frac{24}{7} \Rightarrow 3 \frac{3}{7} \text{ सेकंड}$$

Trick— दोनों रेलगाड़ियों को एक-दूसरे को पार करने में लगा

$$\text{समय} = \frac{2xy}{x+y} = \frac{2 \times 3 \times 4}{3+4}$$

$$= \frac{24}{7} \Rightarrow 3 \frac{3}{7} \text{ सेकंड}$$

